

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 17-04-2021

ग्राम अराजी मतौनी में मतदान के दौरान फायरिंग करने वाला व्यक्ति पिस्टल के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक शहर के मार्ग दर्शन में व क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में दिनांक 15/04/2021 को ग्राम अराजी मतौनी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में मतदान के दौरान हुयी फायरिंग के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 154/2021 धारा 188,307 भा0द0वि0 7 CLA Act से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्र0नि0 खोराबार व उनकी टीम को लगाया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 17.04.2021 को मुखबीर की सूचना पर प्र0नि0 खोराबार मय फोर्स के साथ रामनगर कड़जहाँ पहुँचे जहाँ एक व्यक्ति रामनगर कड़जहाँ पुल के नीचे कही जाने के फिराक में खड़ा था। माकूल शक होने पर प्र0नि0 मय फोर्स द्वारा एकबारगी दबिश देकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम विजय प्रताप सिंह उर्फ विकाश सिंह पुत्र कुँअर प्रताप सिंह निवासी ग्राम अराजी मतौनी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर बताया तथा जामा तलाश से एक अदद पिस्टल .32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त मु0अ0सं0 154/2021 में वांछित अभियुक्त है, जिसे कारण गिरफ्तार बताते हुए समय करीब 11.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा उक्त बरामदगी के आधार मु0अ0सं0 155/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता

विजय प्रताप सिंह उर्फ विकाश सिंह पुत्र कुँअर प्रताप सिंह निवासी अराजी मतौनी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान– 17/04/2021 समय 11.25 रामनगर कड़जहाँ पुल के नीचे व फासला 4. कि0मी0 पूर्व थाना क्षेत्र खोराबार।

बरामदगी – एक अदद पिस्टल .32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 154/2021 धारा 188,307 भा0द0वि0 व 7 CLA Act थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 155/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी

- 1 नासिर हुसैन प्रभारी निरीक्षक खोराबार, गोरखपुर
- 2 व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना खोराबार, गोरखपुर।
- 5.का0 अरविन्द यादव थाना खोराबार, गोरखपुर